

1248



कार्यालय आयकर निदेशक (छूट),

Office of the

Director of Income Tax (Exemption)

दूसरी मंजिल, नेचर व्यू बिल्डिंग, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009
2ND floor, Vasant Nature View Building, Ashram Road,
Ahmedabad 380009

फा.सं.आ.नि(छूट.)/अहम./80जी (5)/221/NKM/2012-13

ता.: 03/01/2013

पैन/PAN : AAATN6626M

न्यासी /The Trustee

Nachiketa Kelavani Mandal

Devli, Tal. Talaja.

Dist. Bhavnagar

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5)के तहत
रिन्यूअल की स्वीकृति के लिए आवेदन -

Sub: Application for grant of Approval / renewal
u/s. 80G(5) of I.T.Act,1961 -

उपर्युक्त न्यास/संस्थान के ता.के फार्म नं. 10 जी में किए गए आवेदन के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त न्यास/संस्थान को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी(5) के तहत, उसमें दी गई सीमा के अंदर, कटौती योग्य है।

With reference to application in form No.10G made by the aforesaid trust/institution on 30/08/2011 it is certified that donations made to the trust/institution shall qualify for deduction u/s.80G(5) of the Income-tax Act, 1961, subject to the limits prescribed therein.

2. उपर्युक्त छूट ता. से वैध है। जब तक कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी पूर्व तारीख से निम्न-लिखित शर्तों के अधीन रद्द नहीं किया जाता।

This exemption is valid from 30/08/2011 onwards unless cancelled by the undersigned on any prior date subject to the following conditions:-

(i) दाताओं को जारी की गई रसीदों में इस प्रमाणपत्र के उपर्युक्त नंबर और तारीख तथा वह अवधि जिसके लिए यह वैध है, का उल्लेख करें।

Receipts issued to the donors should bear the number and date of this certificate and indicate the period for which this certificate is valid.

(ii) उपर्युक्त न्यासी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15),11,12,13 एवं 80 जी की प्रावधानों का पालन करते रहना चाहिए।

The aforesaid entity should continue to fulfill the requirements of section 2(15), 11, 12, 13 and 80G of the I T Act, 1961.



::2::

फा.सं.आ.नि(छूट.)/अहम./80जी (5)/221/NKM/2012-13

- (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4A)/(4C)/(4D) के तहत आडिट रिपोर्ट के साथ, जहाँ लागू हो, संबंधित निर्धारण अधिकारी को नियत तारीख तक आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं बेलेन्स-शीट के साथ आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।
The Statement of Income & Expenditure Account and Balance Sheet are furnished to the concerned Assessing Officer by the due date of furnishing of return of income under section 139(4A)/(4C)/(4D) of the I T Act, 1961 every year along with the audit report, wherever applicable.
- (iv) अगर विलेख/एसोसिएशन ज्ञापन/निधि/संस्थान/न्यास के नीति नियमों में जब भी कोई संशोधन हो तो संबंधित निर्धारण अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाए।
Amendments if any made to the deed of statement/memorandum of Association/Rules Regulations of the Fund/Institution/Trust are intimated to the concerned Assessing Officer, immediately whenever made.
- (V) This certificate is re-issued consequent to order u/s 154 dated 4/1/2013 rectifying the mistakes in the earlier certificate dated 30/12/2011. vide registration no. DIT (E)/AHD/80G(5)/NKM/27/2012-13, dated 03/01/2013.

Sd/-

(एस.के.गुप्ता)

आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद
Director of Income Tax (Exemption),
Ahmedabad

प्रतिलिपि: Copy to:

- (i) The applicant.
- (ii) अपर आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद.
The Addl. DIT(Exemption), Ahmedabad.
- (iii) उप आयकर निदेशक (छूट), Bhavnagar द्वारा संबंधित वर्षों के लिए प्रस्तुत किया गया वार्षिक लेखा विवरण से संतुष्ट हो एवं यह भी देखें कि आवेदक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(जी) की शर्तों तथा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए।

The DDIT(Exemption)/ITO(Exemption), BHAVNAGAR. He should satisfy himself with reference to annual statements and accounts for the relevant years submitted by the applicant and see that it continues to fulfill the conditions laid down U/s. 80G of the IT Act and instructions issued by the Board from time to time.



J. Singh
(जे.बी.सिंह)

Income Tax Officer (HQ),
आयकर अधिकारी (मुख्य).

कृते आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद
For, Director of Income Tax (Exemption),
Ahmedabad

1248

**Office of the
DIRECTOR OF INCOME TAX (EXEMPTIONS), AHMEDABAD**
2nd floor, Vasant Nature View Building, Ashram Road, Ahmedabad: 380 009
(Tel: 26586665/ Tele & Fax: 26584551)

Name of the Assessee	Nachiketa Kelavani Mandal Village Devli Mandal, Tal. Talaja, Dist. Bhavnagar
F. No.	DIT(E)/AHD/80G(5)/221/2012-13
Date of Order	04/01/2013

ORDER UNDER SECTION 154 OF THE INCOME-TAX ACT, 1961

The assessee vide letter dated 5/3/11 submitted that there are some apparent mistakes in the order granting registration u/s 80G dated 30/12/2011. It has been pointed out that instead of Bhavnagar in the address, the name "Ahmedabad" has been written which needs to be amended. Further, it has been stated that the assessment year mentioned is wrong.

2. I have considered the submissions of the appellant. I agree that these two mistakes have crept in the order. The assessee had applied for approval u/s 80G(5) vide application received in this office on 30/8/2011. Therefore, exemption u/s 80G(5) is to be given from 30/8/2011 and not from 1/4/2011. Further in the address, the name Bhavnagar is substituted instead of Ahmedabad as that is the correct address given by the assessee in the application.


3. In view of the above, issue a new amended approval for exemption u/s 80G(5).

Sd/-

(S. K. GUPTA)
DIRECTOR OF INCOME-TAX (EXEMPTION),
AHMEDABAD

Copy to:

- ✓ 1. The applicant trust.
2. Addl. DIT (Exemption), Ahmedabad.
3. DDIT (Exemption), Ahmedabad.
4. Guard File.


(J. B. SINGH) ITO (HQ) (EXEMPTION)
FOR DIRECTOR OF INCOME-TAX (EXEMPTION),
AHMEDABAD